

हमने last class में conditional sentences के बारे में पढ़ा था। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार उसका quick recap कर लेते हैं।

Conditional sentences ऐसे वाक्य या statements होते हैं जो की known factors या काल्पनिक परिस्थिति (hypothetical situations) और उनके परिणामों (consequences) के बारे में बात करते हैं। Conditional sentences के दो भाग होते हैं -

- 1) Conditional clause (जो की if/ when clause भी कहलाता है) - इसमें हम एक condition, शर्त के बारे में बात करते हैं
- 2) Main clause जिसमें उस शर्त होने के बाद के परिणाम के बारे में बात की जाती है

फिर हमने Conditional sentences के दो प्रकारों के बारे में भी जाना था।

Zero Conditional Sentences और First Conditional Sentence

अब हम बाकी के conditional sentences के बारे में जानते हैं।

### **Second Conditional Sentences**

अगर मेरे पास करोड़ों रुपए होते, तो मैं एक island खरीदता। पर मेरे पास है नहीं। और जब मेरे पास हैं नहीं तो उसके बाद की बातें भी एक unrealistic होती है जिसकी पूरी होने की संभावना बहुत कम होती है। बहुत बार बातें करते समय आप ऐसे वाक्यों को बोलते हैं अगर मेरे पास यह होता/ वह होता/ अगर ऐसा होता इत्यादि पर वो सभी बातें पूरी नहीं होती। एक तरह से impossible होती है। ऐसे वाक्यों को आप कैसे बोलेंगे?

ये भी एक तरह के conditional sentences ही हैं क्योंकि जब एक condition पूरी होगी तब ही दूसरी चीज़ें होंगी (या नहीं होंगी)। इस तरह के वाक्यों को Second conditional sentences की category में रखा जाता है।

**Second conditional sentences ऐसे परिणामों को व्यक्त करने के लिए उपयोगी हैं जो पूरी तरह से अवास्तविक हैं या जिनकी भविष्य में होने की संभावना नहीं है।**

Second conditional के वाक्यों को बोलने के लिए

**If+past simple + would+infinitive**

का use करेंगे।

जब हम spoken English की बात करते हैं तो question होता है कि structure तो हमें पता है पर कब और किस समय इनका use करें, यह नहीं समझ आता। तो आज आपकी यह problem भी solve हो जायेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस situation में हम Second Conditional sentences का use करेंगे -

- 1) Second Conditional भी First conditional की तरह हो होता है। हम अभी भी future के बारे में सोच रहे हैं। हम भविष्य में एक particular condition और उसके result के बारे में सोच रहे हैं। पर यहाँ पर कोई real possibility नहीं है कि यह condition पूरी होगी ही या नहीं। जैसे - आपके पास lottery का ticket नहीं है, तो क्या यह possible है कि आप lottery जीत जाएं। बिल्कुल नहीं। अगर lottery ticket नहीं है तो जीतने की भी कोई उम्मीद नहीं है। पर हो सकता है कि भविष्य में आप lottery ticket खरीद लें तब आप भविष्य में जीतने का सोच सकते हैं। पर यह एक तरह का dream है। यह सच नहीं है पर सच हो भी सकता है।

### **If + condition (Past Simple) + result (would + base verb)**

If I won the lottery, I would buy a car. अगर मैं लॉटरी जीत जाता, तो मैं एक कार खरीदता।

2) जब भी हमें ऐसे condition के बारे में बात करनी हो जिसके होने की संभावना नहीं हो या काल्पनिक हो (unlikely or hypothetical condition) और साथ में उसके संभावित परिणाम की तो हम Second Conditional sentences का use करेंगे। ये सभी वाक्य actual situation पर based नहीं होते। याद रखें कि इस तरह के sentences में, समय अभी का या कोई भी समय (time is now or any time) हो सकता है और situation hypothetical (काल्पनिक) होगी। जैसे -

If the weather wasn't so bad, we would go to the park. अगर मौसम इतना खराब नहीं होता, तो हम पार्क में चले जाते।

(पर weather खराब था और इसलिए हम नहीं जा सकते।)

If I was the PM of India, I would punish all the people who are attacking doctors at this time. अगर मैं भारत का पीएम होता, तो मैं उन सभी लोगों को दंडित करता जो इस समय डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं। (पर मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ तो आगे की condition एक काल्पनिक है।)

**It is correct, and very common, to say "if I were" instead of "if I was"(subjunctive mood). जैसे -**

If I were taller, I would buy this dress. अगर मैं लंबी होती, तो मैं यह ड्रेस खरीदती।

If I were you, I would give up smoking. अगर मैं तुम होते तो मैं धूम्रपान छोड़ देता।

बोलते समय आप Second Conditional sentences के main clause में "would" के स्थान पर modals का use कर सकते हैं जिससे आप degree of certainty, permission, or a recommendation about the outcome को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे -

We might buy a larger house if we had more money. यदि हमारे पास अधिक धन हो तो हम एक बड़ा घर खरीद सकते हैं। (उम्मीद ज्यादा है।)

He could go to the concert if you gave him your ticket. यदि आप उसे अपना टिकट दे देते तो वह कॉन्सर्ट में जा सकता।

If I had more money, I could buy a car. अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं एक कार खरीद सकता था। (कार खरीदना possible हो सकता है )

If I won the lottery, I might give all the money to charity. अगर मैंने लॉटरी जीती, तो मैं सारा पैसा चैरिटी को दे सकता हूँ।

(ये सिर्फ एक possibility है की आप सारे पैसे दे सकते थे कोई confirmation नहीं है।)

ध्यान दीजिये कि हम future condition की बात कर रहे हैं। **Simple Past tense का use future condition को बताने के लिए किया है। would + base verb का use भविष्य में उसका result क्या हो सकता है, वह बताने के लिए। The important thing about the second conditional is that there is an unreal possibility that the condition will happen.**

If I were an alien, I would travel around the universe. यदि मैं एक alien होता, तो मैं ब्रह्मांड की यात्रा करता।

मेरे लिए एक alien होना, एक impossible बात है। फिर भी मैं यह imagine कर रही हूँ कि अगर मैं alien होती तो क्या करती।

## **अब बात करते हैं कि Second conditional sentences किस तरह से first conditional sentences से अलग है -**

अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि first conditional उन चीजों को बताता है जो मुझे लगती हैं कि future में संभव है जबकि इसके विपरीत second conditional उन चीजों को बताता है जो मुझे लगता है कि संभव नहीं हो। (ध्यान रखें कि यह subjective है मतलब person के ऊपर depend है कि उसके लिए संभव है या नहीं) If I have enough money, I'll buy some new shoes. अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता है, तो मैं कुछ नए जूते खरीदूंगा।

यह होना बहुत हद तक संभव है इसलिए यहाँ मैंने First Conditional का use किया है।

If I had enough money I would buy a house with twenty bedrooms and a swimming pool. अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं बीस बेडरूम और एक स्विमिंग पूल वाला घर खरीदता।

पर शायद मेरे पास इतना पैसा कभी नहीं होगा और यह सिर्फ मेरे लिए एक सपने की तरह है।

पर जैसा कि मैंने कहा कि यह person to person depend होता है। अगर यही बाद Nick Jonas या Priyanka Chopra बोले तो उनके लिए संभव है तो वे इसे बोलने के लिए first conditional sentences का use करेंगे जबकि मैंने Second conditional sentence का use किया है।

## **Third Conditional Sentences**

If China had not hidden the truth about Coronavirus, so many people would not have died. अगर चीन ने कोरोनावायरस के बारे में सच्चाई नहीं छिपाई होती, तो इतने लोग मारे नहीं जाते।

यह अभी के समय की एक कड़वी सच्चाई है। Frankly speaking, हम नहीं जानते कि सच में क्या हुआ था हमारा एक assumption है कि अगर चीन ने पहले ही इसे महामारी मान कर care की होती, जब वुहान के एक doctor ने आगाह किया था, तो शायद आज स्थिति दूसरी होती। पर अब यह बदला नहीं जा सकता।

तो अगर आपको भी कुछ ऐसा बोलना हो जो past से related हो और अब उसका बदलना नामुमकिन हो तो उसे और उसके result को व्यक्त करने के लिए Third conditional का use करते हैं। जैसे एक और example देखिये

-

अगर यहाँ lockdown नहीं हुआ होता, तो यह class वंदना ma'am द्वारा ली जाती।

यहाँ पर condition है - अगर lockdown नहीं हुआ होता जो की past की घटना है और अब उसे बदलना नामुमकिन है। इसका result क्या हुआ - वंदना मैडम यह class लेती। पर अभी अगर आप present में देखें तो इसका result बिलकुल उल्टा है। अभी मैं यह class ले रही हूँ।

If the lockdown had not happened here, this class would have taken by Vandana ma'am.

**First conditional और second conditionals में हमने future (भविष्य) के बारे में बात की थी। यहाँ third conditional में हम past (भूतकाल) की बात करते हैं। हम past की ऐसी condition के बारे में बात करते हैं जो हुई ही नहीं इसलिए there is no possibility for this condition. Third conditional भी एक dream की तरह है जो कभी पूरी नहीं हो सकती।**

आपने अपनी life में शायद कुछ ऐसा किया हो या ना किया हो, जिसके लिए आप regret करते हो। शायद उन्हें आप कर लेते तो आज कुछ और होता। पर अभी ऐसा सोचना बेकार है क्योंकि आप past में जाकर उसे बदल नहीं सकते। पर जब आप English में बात करते हैं तो उसमें mistakes ना हो, उसके लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी वरना आप बोलेंगे -

If I had practiced Spoken English, my English would have improved today. अगर मैंने स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस की होती, तो मेरी अंग्रेजी आज बेहतर हो जाती।

तो इस तरह की बातें अगर आपको करनी हो तो Third conditional का use करेंगे।

अब आपको यह तो पता चल गया कि कहाँ पर Third conditional का use होगा। अब जानते हैं कि sentence structure कैसा होगा -

### **if + past perfect (had + 3rd form of verb), ...would + have + past participle (verb 3)**

If we had taken a cab, we wouldn't have missed the plane. अगर हम एक टैक्सी ले लेते, तो हम विमान को नहीं छोड़ते।

If it had rained yesterday, would you have stayed at home? अगर कल बारिश होती, तो क्या आप घर पर रहते?

If it had rained yesterday, what would you have done? अगर कल बारिश हुई होती, तो आप क्या करते?

If I had not moved to Germany, I wouldn't have learned German. अगर मैं जर्मनी नहीं गया होता, तो मैं जर्मन नहीं सीखता।

If they had thief in their custody, they would surely inform me. यदि चोर उनके कब्जे में होता तो वे मुझे जरूर बता देते (परन्तु चोर उनके कब्जे में नहीं है)।

ध्यान दीजिए कि ऊपर दिए गए सभी examples में हम impossible past condition की बात कर रहे हैं। impossible past condition इसलिए क्योंकि वह घटित हो चुकी है और अब उन्हें बदला नहीं जा सकता। आखिरी example में देखें कि If they had thief in their custody - अगर चोर उनके कब्जे में होता तो वे दूसरी condition (मुझे बताने की) पूरा करते। पर चोर उनके कब्जे में है ही नहीं और अब हो भी नहीं सकता तो उसका result कैसे आएगा। The important thing about the third conditional is that both the condition and result are impossible now.

एक और example देखिये

If I had cleaned the house, I could have gone to the movie. अगर मैंने घर की सफाई की होती, तो मैं फिल्म देखने जा सकता था।

यहाँ पर (Third conditional) एक और बात important है कि subject/ speaker उस काम को करने में सक्षम है पर उसने किया नहीं। अगर कर लेता तो उसका result कुछ और होता। यहाँ अगर मैंने घर को साफ कर लिया होता तो मैं फिल्म देखने जाती। घर साफ करने में मैं सक्षम हूँ पर मैंने नहीं किया।

**These are all conditions that were likely, but regrettably did not happen.**

The modal auxiliary (would, could, should, etc.) + have + past participle in the main clause expresses the theoretical situation that could have happened.

**अब बात करते हैं कि Second conditional sentences किस तरह से Third conditional sentences से अलग है -**

If I went to the party, I would be tired tomorrow. (Second conditional sentences)

If I had gone to the party, I would have been tired. (Third conditional sentences)

पहले वाक्य में, हमने second conditional का use किया है क्योंकि party future में हैं और हम imagine कर रहे हैं कि अगर मैं जाता तो क्या परिणाम होता (मैं कल थक गया होता) जबकि दूसरे sentence में party past में है। मैं उसमें नहीं गयी पर मैं imagine कर रही हो कि अगर मैं जाती तो क्या होता।

### Mixed Conditional Sentences

हमने अभी तक 4 तरह के conditional sentences में जाना। एक और तरह के conditional sentence के बारे में जानते हैं - Mixed conditionals.

पहले यह समझना जरूरी है कि Mixed conditionals क्या हैं? Mixed conditionals में present (वर्तमान काल) और the past (भूतकाल) का use एक ही वाक्य में होता है। IF clause अलग tense में होता है और RESULTS clause अलग tense में। हम यह भी कह सकते हैं कि हम third conditionals और second conditionals को mix कर रहे हैं। Third conditionals क्योंकि वे PAST के लिए use होते हैं और Second conditionals जो की present के लिए use होते हैं।

अब question है कि हम ऐसा करते क्यों हैं जब हमारे पास already दो conditional sentences हैं तो mixed conditional की जरूरत क्यों है।

इसका एक ही answer है कि कभी कभी कुछ बारीकियों को बताने के लिए mixed conditional sentences का use किया जाता है। हम examples के through mixed conditional sentences को समझेंगे -

इन दो वाक्यों को compare कीजिये -

If I had gone to the party on Saturday night, I would have had fun. अगर मैं शनिवार की रात पार्टी में गया होता, तो मुझे मज़ा आता।

यह वाक्य third conditional का है। यहाँ पर दोनों clauses - IF clause और main clause (result) दोनों ही past के हैं। अगर मैं गया होता जो की अब possible नहीं है। वह घटना हो चुकी है जिसे बदला नहीं जा सकता और उसका result भी।

अब इस sentence को देखिए -

If I had gone to the party on Saturday night, I would be tired NOW. अगर मैं शनिवार रात पार्टी में गया होता, तो मैं अब थक गया होता।

यह sentence mixed conditional का है। यहाँ IF clause में हमने third conditional का use किया है जहाँ हम hypothetical (काल्पनिक) past की बात कर रहे हैं (गर मैं पार्टी में गया होता), और result clause जिसे main clause भी कहते हैं, वह second conditional का है जहाँ हम PRESENT (वर्तमान) result की बात कर रहे हैं कि अगर मैं पार्टी में गया होता तो अभी मैं थक गया होता।

एक और example देखते हैं - (mixed conditional with past condition/present result)

If you hadn't eaten the whole chocolate cake, you wouldn't feel sick! यदि आपने पूरा चॉकलेट केक नहीं खाया होता, तो आप बीमार महसूस नहीं करते!

IF clause में hypothetical past (third conditional) का use किया गया है जबकि main clause में हम अभी वर्तमान समय की बात कर रहे हैं (second conditional)

आपने बहुत बार लोगों को कुछ इस तरह के sentences बोलते हुए भी सुना होगा या आपने भी इस तरह के sentences बोले होंगे -

If I had listened to your advice, I wouldn't be in the mess. अगर मैंने आपकी सलाह मान ली होती, तो मैं इस झंझट में नहीं पड़ता।

If you had taught me how to make cakes (in the past), I wouldn't have to buy them in a shop (now).

(If + Past Perfect (third conditional) + main clause (would/wouldn't + Verb (base form) (Second Conditional) - इस तरह के construction का use ऐसी बातों को express करने के लिए किया जाता है जो अगर past में कुछ और होती तो आज result कुछ और होता।)

If I were a good cook, I would have invited them to dinner.

(If + Past Simple (Second conditional) + main clause - would/wouldn't + have + Past Participle (Third Conditional) - इस तरह के construction का use यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि due to certain present conditions something already happened in the past.)

ये सभी वाक्य सही हैं और इन्हें mixed conditional sentences कहा जाता है।

### **आइए एक बार एक quick recap कर लें जो भी अभी तक हमने पढ़ा है।**

1) सभी conditionals में if clause और एक Main clause होता है जिसे result clause भी कहा जा सकता है।

2) सभी conditionals परिणामों (consequences) के बारे में बताते हैं। अगर यह होता है, तो वह होता ..... बस अलग अलग तरीके से।

**1) Zero conditional** का use जो हमेशा सच हो या किसी scientific facts को बताने में किया जाता है जैसे -

If you heat ice, it melts. अगर आप बर्फ को गरम करते हैं, तो वह पिघल जाती है। (scientific fact है।)

If he is hungry, he cries. अगर वह भूखा है, तो वह रोता है। (शायद यहाँ एक छोटे बच्चे की बात हो रही है। यहाँ tense is NOW और यह एक general fact)

इसका structure है -

If + Simple present tense, + Main Clause (Simple present tense)

2) इसके बाद हमने जाना **First conditional** के बारे में जो एक ऐसी अवस्था को describe करता है जिसके होने की संभावना अत्यधिक है (90%से अधिक) यदि condition पूरी होती है तो जैसे -

If I lose my job, I will be upset. अगर मेरी नौकरी छूट जाती है तो मैं उदास हो जाऊँगी। (इस वाक्य में अगर If clause की condition (शर्त) पूरी होती है तो उसका रिजल्ट यही होगा कि मैं upset हो जाऊँगी। Obvious है कि कोई नौकरी छूटने पर खुश तो नहीं होगा। यहाँ पर हम future के बारे में बात कर रहे हैं About a FUTURE POSSIBILITY. In fact, इस conditional का use तब भी किया जाता है जब If clause के होने की संभावना 50/50 हो। जैसे -

If I study hard, I will pass my English exam. अगर मैं मेहनत से पढ़ाई करूँ, तो मैं अपनी अंग्रेजी की परीक्षा पास करूँगा।

यहाँ हम present (वर्तमान) और future (भविष्य) समय की बात कर रहे हैं की अगर मैं अभी अच्छे से पढ़ाई करता हूँ तो भविष्य में मैं पास हो जाऊँगा।

इसका structure है -

If/when + present simple >>>>>>> will + 1st form of verb.

3) उसके बाद हमने बात की **Second conditional** की। Second conditional sentences ऐसे परिणामों को व्यक्त करने के लिए useful हैं जो पूरी तरह से अवास्तविक हैं या जिनकी भविष्य में होने की संभावना नहीं है। जैसे -

If I lost my job, I would be upset. अगर मेरी नौकरी छूट गई, तो मैं उदास हो जाऊँगा।

हम इस तरह के conditional का use एक तरह से असंभव conditional को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इस वाक्य में If clause के पूरे होने की संभावना ना के बराबर है, शायद केवल 10%. फिर भी मैं imagine कर रही हूँ कि अगर अभी या भविष्य में अगर मेरी नौकरी चली जाती है तो मैं कैसे react करूँगी।

एक और example देखिये

If I studied harder, I would pass the exam. अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती, तो मैं परीक्षा पास कर लेती।

So अभी तक ममेरे exams हुए नहीं है। यह वाक्य एक बार फिर से असंभव condition को बता रहा है - I

studied harder. लगभग असंभव क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत lazy हूँ और यह मैंने accept भी किया है। तो मैं ना तो उतनी मेहनत करूँगी और ना ही पास होऊँगी।

But if I did study harder, I would pass – I am sure of it! लेकिन अगर मैंने कठिन अध्ययन किया, तो मैं पास हो जाऊँगी - मुझे यकीन है!

एक बार फिर से हम present और future की बात कर रहे हैं।

**इसका structure है -**

If + condition (Past Simple) + result (would + base verb)

4) फिर हमने जाना **Third conditional** के बारे में जिसका use हम past की ऐसी condition के बारे में करते हैं जो हुई ही नहीं इसलिए there is no possibility for this condition. Third conditional भी एक dream की तरह है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इस conditional की खाशियत है की इसमें हम सिर्फ PAST, PAST और सिर्फ PAST के बारे में बात करते हैं esp THE CONSEQUENCES OF SOMETHING THAT DIDN'T HAPPEN IN THE PAST. इस तरह के sentences में If clause और Main Clause दोनों ही Past के बारे में बात करते हैं। जैसे -

If I had lost my job, I would have been upset. अगर मेरी नौकरी छूट जाती, तो मैं परेशान हो गया होता।

मैं यहाँ सिर्फ imagine कर रही हूँ कि मैं कैसा feel करती अगर past में यह घटना होती तो। अगर ऐसा होता (मेरी नौकरी चली जाती) तो वैसा होता (तो मैं उदास होती।) पर luckily मेरी नौकरी नहीं गयी है इसलिए मैं उदास भी नहीं थी।

एक और example देखते हैं - मान लीजिए मैंने last month एक exam दिया पर unfortunately, मैं उसमें पास नहीं हो पाई। क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की थी इसलिए मैं पास नहीं हुई। अब अगर आपको यह कहना हिअ तो आप इस तरह कहेंगे -

If I had studied harder, I would have passed my test. अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती, तो मैं अपना टेस्ट पास कर लेती।

मैं एक ऐसे परिणाम की कल्पना कर रही हूँ जिसका action Past में हो चुका है।

**इसका structure है -**

if + past perfect (had + 3rd form of verb), ...would + have + past participle (verb 3)

5) और last में हमने बात की **Mixed conditional** की। यहाँ पर सामान्यतः हम Second और Third conditional को mix करते हैं।

If I had gone to the party on Saturday night, I would be tired NOW. अगर मैं शनिवार रात पार्टी में गया होता, तो मैं अब थक गया होता।

यह sentence mixed conditional का है। यहाँ IF clause में हमने third conditional का use किया है जहाँ हम hypothetical (काल्पनिक) past की बात कर रहे हैं (गर मैं पार्टी में गया होता), और result clause जिसे main clause भी कहते हैं, वह second conditional का है जहाँ हम PRESENT (वर्तमान) result की बात कर रहे हैं कि अगर मैं पार्टी में गया होता तो अभी मैं थक गया होता।

हम IF clause में second conditional का और Main clause में third conditional का भी उसे कर सकते हैं (This will then be present condition/past result) जैसे -

If he was a nicer person, he wouldn't have stolen your money! यदि वह एक अच्छा व्यक्ति होता, तो वह आपके पैसे नहीं चुराता!

उम्मीद है अब आप अपनी विचारों को सही तरीके से और without any grammatical mistake के दूसरों के सामने साख सकते हैं। यह lesson competitive exams की दृष्टि से भी important है तो इसकी practice कीजिये।